


विशेष रिपोर्ट

बुलियन


(जुलाई 2022)



Moneywise. Be wise.



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

जनवरी के बाद से कॉमेक्स में सोने की कीमतों में लगातार तीसरी मासिक गिरावट दर्ज की गई, और कीमतें लगभग 2% लुढ़क गईं और चांदी की कीमतों में 6.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि बढ़ती मुद्रास्फीति पर चिंताओं के बावजूद मजबूत डॉलर के दबाव और अमेरिकी ट्रेजरी की बढ़ती हुई यील्ड के कारण सराफा की मांग प्रभावित हुई। दूसरी तिमाही में बुलियन के प्रदर्शन ने इस वर्ष में पहले दर्ज बढ़त को गवां दिया, और कीमतें 2022 की शुरुआत में करीब 1,800 डॉलर से थोड़ा ही ऊपर रही। जून तिमाही में सोने की कीमतों में करीब 6.4 फीसदी की गिरावट हुई है। डॉलर इंडेक्स अपने हाल के दो दशक के उच्च स्तर के पास रहा है और जून तिमाही में 6% की वृद्धि दर्ज की, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना अधिक महंगा हो गया। अमेरिकी आंकड़ों ने शुरू में व्यापारियों को यह विचार दिया कि चूकि मुद्रास्फीति मई से भी बदतर नहीं थी, इसलिए शायद फेड इतना आक्रामक नहीं होगा और सोने की कीमतों को मदद मिली। लेकिन बाजार में अभी भी नरमी का रुझान है और स्ट्रॉरियों की बिकवाली के कारण कीमतों में गिरावट हुई। भारत में, 30 जून, 2022 को सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिए जाने और भारतीय रुपये के कमजोर होने से सोने की कीमतों को मदद मिली और गिरावट की काफी भरपायी हुई।

आउटलुक

जुलाई में, आसमान छूती मुद्रास्फीति, संभावित मंदी, और रूस-यूक्रेन युद्ध के अन्य भू-राजनीतिक और आर्थिक नतीजों या उच्च यील्ड और फेड द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण मजबूत डॉलर या बढ़ती यील्ड जैसे विभिन्न कारणों से सोने और चांदी की कीमतों में उच्च अस्थिरता के साथ कारोबार करना जारी रहेगा। अपेक्षित रिकवरी से पहले, जब मंदी की मार और केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कमी करने की जरूरत होगी, नकदी और धन संरक्षण के लिए निवेशकों की प्राथमिकता में सोने में कमी देखने को मिल सकती है। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति जून में एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जिससे इस महीने में ईसीबी द्वारा दर वृद्धि की संभावना प्रबल हो गई। पुर्तगाल में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष केंद्रीय बैंक प्रमुखों ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति को कम करना परेशान करने वाला होगा और विकास को भी बाधित कर सकता है, लेकिन तेजी से मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए इसे जल्दी से किया जाना चाहिए। भारत में आयात शुल्क में वृद्धि और धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण उच्च कीमत सोने की मांग में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जो पहले से ही कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल सकती है।



स्रोत: रायटर्स



स्रोत: रायटर्स



स्रोत: रायटर्स




स्रोत: रायटर्स

जुलाई में सोने की कीमतें 50000-53000 के दायरे में कारोबार कर सकती है और चांदी की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कीमतें 55500-61500 के दायरे में कारोबार हो सकती है। कोमेक्स पर सोने की कीमतें 1720-1820 डॉलर के दायरे में और चांदी की कीमतें 17.00-22.00 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है।

प्रमुख समाचार

- रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर अनिश्चितता अभी भी जारी है। यूक्रेन को लेकर बिगड़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण सर्राफा की सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ी है। दुनिया भर की सरकारों ने मास्को के खिलाफ भारी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन व्यापक संघर्ष को भड़काने के डर से सीधे हस्तक्षेप से बच रहे हैं।
- जी-7 के नेताओं के यथासंभव लंबे समय तक यूक्रेन का समर्थन करने और क्रेमलिन पर दबाव बढ़ाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाए रखने की संभावना है। लेकिन वे उन प्रतिबंधों से बचना चाहेंगे जो मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं और अपने स्वयं के लोगों को प्रभावित करने वाले जीवन की लागत के संकट को बढ़ा सकते हैं।
- नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि जून में यूरो-जोन की मुद्रास्फीति बढ़कर 8.6% हो गई। अमेरिका में, मुद्रास्फीति, जो लगभग 40 साल के उच्च स्तर पर है, की रिकॉर्ड गति से थोड़ी तत्काल राहत मिली है, लेकिन खराब स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है और यहां तक कि भारत में भी मुद्रास्फीति बढ़ रही है और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में बुलियन को कुछ समर्थन मिल सकता है।
- लेकिन निवेशक बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक सख्ती के कारण संभावित मंदी को लेकर भी चिंतित हैं
- जी-7 राष्ट्रों के नेताओं ने हाल ही में रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जो रूस का एक प्रमुख निर्यात है और रूस का अरबों डॉलर की प्राप्ति होती है, ताकि उसे यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए धन देने के लिए राजस्व से वंचित किया जा सके। रूसी सोने की अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति में कमी हो सकती है, लेकिन यह बाजार का एक प्रमुख कारक नहीं होगा।
- विश्व स्वर्ण परिषद के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, जिसके पास विश्व के उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा है।
- लेकिन रूसी सोने के निर्यात पर प्रतिबंध के लिए केवल अमेरिकी सरकार और पश्चिमी सहयोगी देश ही सहमत हैं। यह चीन और भारत के लिए एक अच्छा समय हो सकता है कि वे अगली मुद्रा संकट आने पर अपनी मुद्रा के गिरावट से बचाने के लिए अधिक स्वर्ण भंडार बढ़ाएं।


कॉम्पेक्स में सोने-चांदी की कीमतों का अनुपात



स्रोत: रायटर्स

एनॉलसिस: जून में सोने-चांदी का अनुपात 84.2 से बढ़कर 89 हो गया, क्योंकि चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में तेजी से गिरावट हुई थी। अब यह अनुपात मई में 85-93 के दायरे में रह सकता है।

एसपीडीआर ट्रस्ट में सोने की होल्डिंग की कीमत



Source: goldprice.org

एनॉलसिस: एसपीडीआर सोने की कीमते 162-172 के दायरे में रह सकती है।

एसएमसी कमोडिटी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं - www.smctradeonline.com



Moneywise. Be wise.

Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401/402,
4th Floor, Graham Firth Steel Compound,
Off Western Express Highway, Jay Coach
Signal, Goregaon (East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600,
Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate
No-4, 5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिर्वाइजरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एफएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्यूटर्ड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिर्वाइजरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एंजलिसट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एंजलिसट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एंजलिसट द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एंजलिसटों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आशंका नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एंजलिसट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एनए द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिस्क्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राधिकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री को कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और यह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।